

ARMY PUBLIC SCHOOL NAGROTA

SESSION 2024– 2025

SYLLABUS FOR GOING TO 11th

CLASS : Going to 11th

S.NO	SUBJECT	SYLLABUS	
1.	ENGLISH	1.Letter to Editor /placing order/ complaint letter 2.Analytical paragraph 3.Story writing Grammar 1. Reported Speech 2. Tenses 3. Subject Verb Agreement 4. Determiners 5. Modals	
2	HINDI	*पठन कौशल -* * अपठित गद्यांश *व्याकरण* - * समास की परिभाषा एवं भेद * रचना के आधार पर वाक्य भेद * मुहावरे - अर्थ एवं वाक्य निर्माण * पदबंध की परिभाषा एवं भेद *लेखन कौशल -* * औपचारिक पत्र * रचना के आधार पर वाक्य के भेद * विज्ञापन * ई-मेल लेखन * लघु कथा लेखन * सूचना लेखन	

3.	MATHS	<p>Chapter 1 Real numbers</p> <p>Chapter 2 polynomials</p> <p>Chapter 3 pairs of linear equations in two variables</p> <p>Chapter 4 quadratic equations</p> <p>Chapter 5 Arithmetic progressions</p> <p>Chapter 6 Triangles</p> <p>Chapter 7 Coordinate geometry</p> <p>Chapter 8 Introduction to trigonometry</p> <p>Chapter 9 some applications of Trigonometry</p> <p>Chapter 10 circles</p> <p>Chapter 11 Area related to circles</p> <p>Chapter 12 surface area and volume</p> <p>Chapter 13 statistics</p> <p>Chapter 14 probability</p>	
4.	S.SC	<p>History</p> <p>Ch- 1-Nationalism in Europe</p> <p>Ch2- Nationalism in India</p> <p>Ch3- Print culture</p> <p>Economics:</p> <p>Ch 1 Development</p> <p>Ch2 Sectors of Indian economy</p> <p>Ch3- Money and credit</p> <p>Pol sc</p> <p>Ch-1 power sharing</p> <p>Ch 2 Federalism</p> <p>Ch3- Political parties</p> <p>Ch4-Outcomes of democracy</p> <p>Geography</p> <p>Ch1 resource and development</p> <p>Ch2 forest and wildlife</p> <p>Ch3- water resource</p>	

		Ch 4- Agriculture Ch5- in manufacturing industries	
5.	SCIENCE	Ch 1 -Chemical Reactions and Equations Ch 2- Acids, Bases and Salts Ch 3- Metals and Non-metals Ch 4-Carbon and its Compounds Ch 5- Life Processes Ch 6- Control and Coordination Ch 7- How do Organisms Reproduce? Ch 8-Heredity Ch 9-Light - Reflection and Refraction Ch 10- The Human Eye and the Colourful World Ch 11- Electricity Ch 12- Magnetic Effects of Electric Current Ch 13- Our Environment	